



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251151
CG-DL-E-04012024-251151

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]
No. 17]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 20(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, मुख्य संपादक, वरिष्ठ संपादक, संपादक, सहायक संपादक और तकनीकी सहायक (प्रकाशन) समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2020 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, मुख्य संपादक, वरिष्ठ संपादक, संपादक, सहायक संपादक और तकनीकी सहायक (प्रकाशन) समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, मुख्य संपादक, वरिष्ठ संपादक, संपादक, सहायक संपादक और तकनीकी सहायक (प्रकाशन), समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती नियम, 2020 में, अनुसूची में, संपादक के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ (11) में -

(i) उप-शीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-शीर्षक "प्रोन्नति" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात तथा टिप्पण से पूर्व, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्: -

"टिप्पण 1: खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, मुख्य संपादक, वरिष्ठ संपादक, संपादक, सहायक संपादक और तकनीकी सहायक (प्रकाशन), समूह 'क' और 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स (रु. 44900-142400) में स्तर 7 में सहायक संपादक के फीडर पद के संबंध में पात्रता सेवा तीन वर्ष जारी रहेगी।";

(iii) "टिप्पण" को "टिप्पण 2" के रूप में संख्याकित किया जाएगा।

[फा. सं. 22/1/2023- खान III]

संजय लोहिया, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 468(अ) तारीख 17 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2024.

G.S.R. 20(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Chief Editor, Senior Editor, Editor, Assistant Editor and Technical Assistant (Publication), Group 'A' and 'B' Posts Recruitment Rules, 2020, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Chief Editor, Senior Editor, Editor, Assistant Editor and Technical Assistant (Publication), Group 'A' and 'B' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Chief Editor, Senior Editor, Editor, Assistant Editor and Technical Assistant (Publication), Group 'A' and 'B' Posts, Recruitment Rules, 2020 in the Schedule, against serial number 3 relating to the post of Editor, in column (11), -

(i) under the sub-heading "Promotion", for the words "three years", the words "five years" shall be substituted;

(ii) after sub-heading "Promotion" and the entries relating thereto and before Note, the following Note shall be inserted, namely: -

"Note 1: The eligibility service shall continue to be three years in respect of incumbents holding the feeder post of Assistant Editor in level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) on regular basis on the date of notification of the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Chief Editor, Senior Editor, Editor, Assistant Editor and Technical Assistant (Publication), Group 'A' and 'B' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2023.";

(iii) the "Note" shall be numbered as "Note 2".

[F. No. 22/1/2023-M.III]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R 468(E), dated the 17th July, 2020.